

July 29, 2021

DCS-CRD BSE Limited First Floor, New Trade Wing Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai 400 023 <b>Stock Code: 533229</b>	Listing Compliance National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, 'G' Block Bandra- Kurla Complex Bandra East, Mumbai 400 051 <b>Stock Code: BAJAJCON</b>
--	--

Dear Sir/Madam,

**Sub: News Paper Publication of Notice of Board Meeting**

Pursuant to the Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith Notice of Board Meeting scheduled on August 5, 2021 published in Jai Rajasthan (Hindi Daily) and Economic Times (English Daily) dated July 29, 2021.

The same may please be taken on record and suitably disseminated to all concerned.

Thanking you,

Yours Sincerely,

**For Bajaj Consumer Care Limited**



**Chandresh Chhaya**  
**Company Secretary**  
Membership No.: FCS 4813

Encl: as above

## ABB India Q1 Net Jumps Four-Folds to ₹68 Crore

New Delhi: ABB India on Wednesday posted a four-fold jump in its net profit to ₹68 crore in the June quarter compared to the year-ago period mainly due to higher revenues. The net profit of the company from continuing operations was ₹7 crore in the quarter ended on June 30, 2021, the company said in a statement. ABB India follows January-December fiscal.

Total orders for the quarter were at Rs 1,689 crore as compared to Rs 1,200 crore in Q2 2020 (April-June), a growth of 41 per cent.

Comments on the results, Sanjeev Sharma, Managing Director, ABB India, said that the company has posted a "strong recovery while leveraging growth market segments with a good bounce back once the pandemic wave started to wane in June". "Solid demand for ABB products, solutions and services portfolio in many of our targeted market segments ensured our profitability despite the sharp increase in commodity prices during the quarter aided by operational efficiencies," he added.

The health and safety of stakeholders continues to be top priority and is an integral part of the company's business continuity strategy to serve customers, he stated.

"We have rolled out a voluntary pan-India vaccination drive for all our employees, families, and partners across locations with nearly 80 per cent targeted personnel coverage by end of June," he also said.

"We are on track with our 10-point ESG plan and continue to invest in this initiative and are seeing the impact in our targeted communities. We are well prepared to leverage our strength and readiness in H2CY2021," he said.

Total orders for the quarter were at Rs 1,689 crore as compared to Rs 1,200 crore in Q2 2020 (April-June), a growth of 41 per cent. The month of June witnessed a gradual bounce back in orders by various state level lockdowns in the first two months of the quarter. There was a marginal dip in orders sequentially with businesses impacted by localized impact of the second wave, the company said. PTI

## LOCKDOWN SLOWS DOWN INVESTMENTS

# State-Run Oil Cos Spend 20% of Annual Capex Target in Q1

### BPCL has spent at the fastest pace among state-run companies

Our Bureau

New Delhi: State-run oil companies have spent ₹30,000 crore in the first quarter this year, nearly a fifth of their annual capex target of ₹165,000 crore, as per the petroleum and natural gas ministry.

Bharat Petroleum Corporation has spent at the fastest pace among state-run companies, using up 35% of its annual target of ₹10,000 crore in the April-June period. The refiner, which is seeking new owners, is investing in a range of projects from pipelines to petrochemicals facility, marketing infrastructure and city gas.

Companies faced many hurdles in



executing their projects during the first quarter as the second wave of Covid-19 devastated the country, leaving many workers and families sick and restricting mobility for men and material. As states have lifted lockdown restrictions, now projects are gaining momentum, said an industry executive.

Last year it was for these companies as lockdowns across several countries slowed the move-

ment of equipment and experts from abroad while project sites faced a shortage of workers for months as tens of thousands of labourers had gone back home. This year the projects faced limited restrictions.

Indian Oil Corporation, the nation's largest refiner, spent 14% of its annual target of ₹28,500 crore in the first quarter. Hindustan Petroleum Corporation, another refiner, invested 21% of its target of ₹14,500 crore.

Oil and Natural Gas Corporation, which has the highest annual capex target among state-run companies, at ₹28,800 crore, spent ₹5,200 crore during the April-June quarter. This was 17% of the annual target.

OIL India has spent ₹1,000 crore, nearly a fourth of its annual target of ₹4,100 crore. GAIL, the nation's largest natural gas marketer and transporter, used up 10% of its target of ₹5,900 crore.

## MGL Net Profit Jumps 351% on Low Base

New Delhi: Maharashtra Gas Ltd, the firm that retails CNG and piped cooking gas in Mumbai and other places, on Thursday reported a 351% jump in its June quarter net profits volumes recovered over a low base of last year. Net profit of ₹204.08 crore, or ₹20.66 per share, in April-June compared with ₹46.25 crore, or ₹4.58 a share, in the same period a year back, according to a stock exchange filing by the company. The net profit for last year was under lockdown that impacted mobility but was lower than the preceding quarter. PTI



### IndianOil INDIAN OIL CORPORATION LIMITED

(CIN: L22010MH1959G001386)  
Regd. Office: Indian Oil Bhavan, G-8, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (E), Mumbai - 400051  
Tel: 022-28443727 Email: investors@indianoil.in Website: www.iocl.com

#### PUBLIC NOTICE OF CONVENING 62<sup>ND</sup> ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM

Notice is hereby given that, the 62<sup>nd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members of Indian Oil Corporation Limited ("Company") will be held on Friday, 27<sup>th</sup> August 2021 at 10:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules notified thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the business set out in the notice calling the AGM.

The VC / OAVM facility for the meeting shall be provided by National Securities Depositories Limited ("NSDL") to transact the business set out in the Notice convening the AGM. The members can attend and participate in the AGM only through VC / OAVM as no provision has been made to attend the AGM in person. The attendance through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum for the AGM.

In compliance with the MCA & SEBI Circular(s), the Notice setting out the business to be transacted at the AGM together with the Integrated Annual Report of the Company for the year 2020-21 will be sent electronically to those members whose email address is registered with the Company / Depository Participant(s). No physical copies of the Notice and the Integrated Annual Report would be sent to any member. The Notice of the AGM and the Integrated Annual Report will also be available on the Company's website at [www.iocl.com](http://www.iocl.com) and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively, and on the website of NSDL at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

**Manner of registering / updating email address for receiving the documents pertaining to 62<sup>nd</sup> AGM**  
For the limited purpose of sending the Notice of the AGM and the Integrated Annual Report for the year 2020-21 through email to those members, whose email address is not registered / updated either with the Company's Registrar & Transfer Agent (RTA - KFin Technologies Private Limited) or their Depository Participant, such member may send a request at [emailreg@kfintrich.com](mailto:emailreg@kfintrich.com) with the subject 'Indian Oil Corporation Limited - AGM 2020-21' stating their folio / demat account no. and enclosing therewith a self-attested copy of their PAN card.

For permanent registration / updation of the email address, members may send their request as given below:  
(a) For shares held in physical form - to the RTA at KFin Technologies Private Limited, Selexium Tower B, Plot 31-32, Gashodi, Financial District, Nanakprasth, Hyderabad - 500 032 providing the Folio No., Name of member, scanned copy of a share certificate (front and back), self-attested copy of PAN card and address proof.  
(b) For shares held in dematerialised form - with the Depository Participant (DP) where the demat account is maintained as per the process advised by your Depository Participant (DP).

**Manner of casting vote (through e-voting and joining the AGM through VC/OAVM)**  
Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting facility ("remote e-voting"). The facility for e-voting will also be made available during the AGM to those members who could not cast their vote(s) through remote e-voting. The detailed procedure for e-voting before as well as during the AGM is provided in the Notice of the AGM. Members who do not receive email or whose email address is not registered with the Company / DP may generate login credentials by following instructions given in the Notice of the AGM. The same login credentials can also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

**Record Date for payment of Final Dividend:**  
The Company has fixed Friday, 6<sup>th</sup> August 2021 as the Record Date for determining the eligibility of members to receive final dividend, recommended by the Board of Directors of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March 2021.

The dividend will be paid within the stipulated period of 30 days from its declaration through electronic mode to those members whose updated bank account details are available. For members whose bank account details are not updated, dividend warrants / demand drafts will be sent to their registered address. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to register / update their bank account details.

Members may send their requests for change / updation of address, bank account details, email address, nominations, etc.:  
1) For shares held in dematerialised form - to their respective Depository Participant.  
2) For shares held in physical form - to the Registrar & Transfer Agents ("RTA") i.e. KFin Technologies Pvt. Ltd. (KFT), Selexium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakprasth, Hyderabad - 500 032. Toll Free No. 1900 308 4001; E-mail Address: [emailreg@kfintrich.com](mailto:emailreg@kfintrich.com).  
Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting and e-voting at the AGM.

Place: Mumbai Date: 27<sup>th</sup> July 2021

For Indian Oil Corporation Limited  
Sd/-  
(Kamal Kumar Gwalani)  
Company Secretary  
M. No. A13737

**पंजाब नैशनल बैंक**  
punjab national bank

**Mega Auction by Punjab National Bank on 12th August**  
Punjab National Bank is organizing Mega Auction across the country on 12th August 2021 of more than 5000 properties, which include residential, commercial and of industrial categories.

Sh. G. R. Sachdeva, Zonal Sales Head of Punjab National Bank today informed that the interested buyers will be having wide range of options for purchase of properties across the country. Large number of buyers have shown interest in the process as the properties are put on auction at very competitive price. The recent trend of the economy has revealed that post 2nd wave of Covid-19, many owners/buyers are looking for better opportunities.

**पंजाब नैशनल बैंक**  
punjab national bank

**Mega Auction by Punjab National Bank on 12th August**  
Punjab National Bank is organizing Mega Auction across the country on 12th August 2021 of more than 5000 properties, which include residential, commercial and of industrial categories.

Sh. Raju Mahajan, Circle Head, Jodhpur of Punjab National Bank today informed that the interested buyers will be having wide range of options for purchase of properties across the country. Large number of buyers have shown interest in the process as the properties are put on auction at very competitive price. The recent trend of the economy has revealed that post 2nd wave of Covid-19, many owners/buyers are looking for better opportunities.

**RO:416 RO.DT:28.07.2021, W:8.00, H:8.00**

**bajaj CONSUMER CARE**  
Bajaj Consumer Care Limited  
CIN: L1910R2009PLC041713  
Reg. Office - Old Station Road, Sevasthram Chouraha, Udaipur 313 001, Rajasthan  
Phone: 0294-256151-52 Website: [www.bajajconsumercare.com](http://www.bajajconsumercare.com)  
Email: [compliance@ccfcbajajconsumer.com](mailto:compliance@ccfcbajajconsumer.com)

**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled on Thursday, August 5, 2021, inter alia, to approve the Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter ended June 30, 2021.

The information contained in this Notice is also available on the website of the Company i.e. [www.bajajconsumercare.com](http://www.bajajconsumercare.com) and also on the website of the Stock Exchanges, where shares of the Company are listed i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Date: July 28, 2021  
Place: Mumbai

For Bajaj Consumer Care Limited  
Sd/-  
Chandresh Chhaya  
Company Secretary  
Memberships No. FCS 4813  
bajaj GROUP

**NSE**  
National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051

**NOTICE**  
This is with reference to the Public Notice issued on July 16, 2021 with respect to the expulsion of Stamped Capital Limited.

Exchange wide circular reference number NSE/COMP/49098 dated July 26, 2021 has informed that the trading rights of the said member has been restored from July 27, 2021 in view of the SAT order passed dated July 26, 2021.

The constituents of the above mentioned member are requested to take note of the same and do not file any claim against the member till further notice.

Place: Mumbai  
Date: July 29, 2021

For National Stock Exchange of India Ltd.  
Sd/-  
Chief Manager  
Defaulters' Section

Nifty50

**mb magicbricks**  
Property Sale, Rent, Valuation  
Owner Services

**WHICH IS THE HASSLE-FREE WAY TO REACH OUT TO BUYERS - WITH ASSISTANCE OR WITHOUT?**

**Unassisted Search** **Assisted Search**

ATTRACT MORE BUYERS, OPT FOR **PREMIUM OWNER SERVICES by MB**  
Avail professional assistance of a Relationship Manager along with a host of thoughtfully developed services.

Call us @ 995-885-6999

Professional Photography • Prominent listing of your property • Content Writing Services • Relationship Manager to take complete care of your portfolio

Terms & Conditions Apply Log on to [magicbricks.com/ownerservices](http://magicbricks.com/ownerservices)

**uti UTI Mutual Fund**  
UTI Asset Management Company Limited

CIN: U65991MH2002PLC137867  
Registered Office: UTI Tower, GN Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051.  
Tel: 022-4478 6666, Fax: 022-26528991, E-mail: [care@uti.com.in](mailto:care@uti.com.in), Website: [www.utiimf.com](http://www.utiimf.com)

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021** (Rs. in Crore)

Particulars	Consolidated Financial Result		
	Quarter ended June 30, 2021 (Reviewed)	Year Ended March 31, 2021 (Audited)	Quarter ended June 30, 2020 (Reviewed)
Total Income from operations	344.35	1,168.52	261.30
Net profit for the period (Attributable to owners of the company) (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	189.61	603.03	124.57
Net profit for the period before tax (Attributable to owners of the company) (after exceptional and/or extraordinary items)	189.61	603.03	124.57
Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	155.03	494.14	101.36
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	158.38	486.88	65.41
Equity share capital	126.79	126.79	126.79
Earnings per share (nominal value of share Rs.10) (Not annualised)	12.23	38.97	7.99
Basic (Rs):	12.23	38.97	7.99
Diluted (Rs):	12.23	38.97	7.99

  

Particulars	Standalone Financial Result		
	Quarter ended June 30, 2021 (Reviewed)	Year Ended March 31, 2021 (Audited)	Quarter ended June 30, 2020 (Reviewed)
Total Income from operations	275.71	940.56	210.05
Net profit for the period (after exceptional and/or extraordinary items)	148.01	457.82	90.65
Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	148.01	457.82	90.65
Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	119.01	351.67	69.08
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	122.43	344.48	33.11
Equity share capital	126.79	126.79	126.79
Earnings per share (nominal value of share Rs.10) (Not annualised)	9.39	27.74	5.45
Basic (Rs):	9.39	27.74	5.45
Diluted (Rs):	9.39	27.74	5.45

Notes:  
1. The above results for the quarter ended June 30, 2021, of the Company have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on July 28, 2021.  
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.utiimf.com](http://www.utiimf.com).

For UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED  
Sd/-  
Instayazur Rahman  
Chief Executive Officer & Whole Time Director  
(DIN: 01818725)

Place: Mumbai Date: July 28, 2021

# आज का चित्र



# जय जिनेन्द्र

**भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई।**

## श्रद्धा विश्वास में एसी शक्ति होती है जो नर को नारायणी बनाती है : पू.साध्वी जी उज्ज्वलश्री जी म.सा.

उदयपुर, 28 जुलाई। शेष को बाड़ी आदिनाथ जैन मंदिर में विराजित पू.साध्वी जी उज्ज्वलश्री जी म.सा. ने प्रवचन में बताया श्रद्धा विश्वास में एसी शक्ति होती है जो नर को नारायणी बनाती है। जीवन बचपन जबकी व बुढ़ापे से बना है। बचपन में मां, जवानी में महत्ता, बुढ़ापे को परमात्मा सुधार देता है। इसलिए परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। साध्वी जी ने बताया कि विश्वास सृष्टि की बुनियाद है। श्रद्धा जीवन की नींव है। श्रद्धा गयी तो जीवन नरकमय बन जाता है।

## कांग्रेस के पास विधायों का अकाल, व्यर्थ ही मचा रहे रोष : दीपि किरण माहेधरी

राजसमन्त, 28 जुलाई। भाजपा की युवा नेत्री एवं विधायक दीपि किरण माहेधरी ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास जगहगत विधायकों का अकाल है। इस संदर्भ में सर्वथक विचार विमर्श से भाग रहे हैं एवं प्रतिदिन होमांग कर रहे हैं। विधायक दीपि किरण माहेधरी ने खमनोर में महाराणा प्रताप की श्रद्धालु दिवस 2021 के चौथोपारण किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए विधायक दीपि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक परम्पराओं में विश्वास नहीं है। प्रतिपक्ष संसद में किसानों, कोरोना संक्रमण एवं अन्य समस्याओं पर बहस करने को तैयार नहीं है। विधायक दीपि ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को आर्य बढ़ाने के निश्चित लक्ष्य से काम कर रहे हैं।

## सद्भावना रैली के साथ रोटरी मेवाड़ का पदस्थापना सहस्रपत्र

उदयपुर, 28 जुलाई। कोरोना काल के इस दौर में भी सेवा के जज्बे को जिंदा रखने हुए रोटरी मेवाड़ विभिन्न सेवा के प्रकल्प जारी रखे हुए हैं, जिसमें भोजन वितरण, टीकाकरण अभियान, गरिबों को राशन सामग्री आदि प्रकल्प से से की जा रही है। इसी क्रम में रोटरी मेवाड़ ने सद्भावना यत्रा का आयोजन किया जो उदयपुर से आरंभ होकर मत्स्य आरंभ में पदस्थापना सहस्रपत्र के रूप में समाप्त हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रह्मकुमारि से बहस सुमन दीदी एवं कोमल बेदी थे। इस अवसर पर रोटरी क्लब मेवाड़ के अध्यक्ष रमेश सतीश जोषावत एवं पैरन हंसराज चौधरी एवं रोटरी मेवाड़ के सदस्य उपस्थित उपस्थित थे।

## मानव शुद्ध मन से परमात्मा का दो घड़ी भी स्मरण करलेता है तो मुक्ति के द्वार खोल सकता है : प्रवर्तक सुकनमुनि महाराज

उदयपुर, 28 जुलाई। एक वक्ता भी मानव को संस्कारों के प्रति लाय जाए तो मुक्ति के द्वार खुल सकता है प्रवर्तक सुकनमुनि महाराज ने लोकाह्लास जैन स्थापक अशोकनगर में बुधवार को उद्घाटित श्रद्धालुओं दिने मंचे उद्घाटन में कहा कि संसार का भीतिक सुख स्थान नहीं है दो घड़ी भी अगर इतना शुद्ध मन से परमात्मा का नाम ले लेता है तो उसे संसार सुगर से लिहा में देख नहीं लगेगी। हरिभू मित्र शिवा मुनि ने कहा कि महापुरुषों को वाणी को सुनकर आत्म मंगल करने वाला

## अक्षिता चेरपरसन व अदिती सचिव बनी

उदयपुर, 28 जुलाई। उदयपुर युनाइटेड लेडीज सचिव की आज सम्पन्न हुई वार्षिक बैठक में नवीन कार्यकारीणी का पदन किया गया जिसमें वर्ष 2021-22 के लिये अक्षिता सिन्धी चेरपरसन व अदिती बंधू चुनी गईं। इसके अतिरिक्त कार्यकारीणी में बहस चेरपरसन तबसूम सेफी पंडत, कोषाध्यक्ष स्वाति डुरावत तथा निरंतरतन चेरपरसन नेहा ठापा को शामिल किया गया।

**baajaj CONSUMER CARE**  
 Bajaj Consumer Care Limited  
 CMC 110116R/2006R/02477373  
 Regd. Office : Old Station Road, Sevrahn Chouhata, Udaipur 313 001, Rajasthan  
 Phone: 0234-2261531-32 Website: www.baajajconsumer.com  
 Email: complaint@baajajconsumer.com

**NOTICE**  
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 and 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the information of Board of Directors of the Company is scheduled on Thursday, August 5, 2021, after 10 a.m. to approve the Un-audited Financial Results (Standstill and Consolidated) for the quarter ended June 30, 2021.

The information contained in this Notice is also available on the website of the Company i.e. www.baajajconsumer.com and also on the website of the Stock Exchanges where shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

**Date : July 28, 2021**  
**Place : Mumbai**

**For Bajaj Consumer Care Limited**  
 Sd/-  
 Chandrasekh Chhataya  
 Company Secretary  
 Membership No. FCN 4815

**baajaj**  
 CONSUMER CARE

ज्यव्याधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक शैलेश व्यास द्वारा जय राजस्थान दैनिक कार्यालय : 126, एबीसी हिल्स ममरी सेक्टर-11, चन्द्रपुरी उदयपुर, शाहीबाग के पीछे, उदयपुर 313002 से प्रकाशित नोंबा प्रिंस्स, 5 बजार वाली, हाथीपोल से मुद्रित, आरएआइ नम्बर : 23554/72, डाक पंजीयन : RJ/UD/29/45/2021-2023 पत्रक रजिस्ट्रेशन : (0294) 2487066, 9928090996 | फोन : 9829044996 संपादक शैलेश व्यास | e mail ID : jai.rajasthan@hotmail.com, jai.rajasthan72@gmail.com

# विद्यापीठ - आदर्श होम्योपैथी चिकित्सा केन्द्र का उद्घाटन कम्प्युनिटी सेवा विद्यापीठ की प्राथमिकता : प्रो. सारंगदेवोत



## नि-शुल्क परामर्श, जांच एवं दवा का मिलेगा लाभ

उदयपुर 28 जुलाई। जनार्दनराय नारयणस्थान विद्यापीठ डेवट टू बी विश्वविद्यालय के टाउन हॉल स्थित श्रमजीवी महविद्यालय परिसर में बुधवार को आदर्श होम्योपैथी चिकित्सा केन्द्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि कर्नल विनोद बागवत रूप कमांडर एससीओ कुलपति कर्नल प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत, प्राध्यापक डॉ. अमिता गोक्यामी, डीन प्रो. सुमन पामेका ने किया। कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि संस्थान शिक्षा के साथ साथ अन्न आमजन को सुलभ व अच्छे चिकित्सा सुविधा मिले इस हेतु

डबको परिसर में 13 करोड़ को लागत से बने वाला 150 बेड का हॉस्पिटल बन कर तैयार हो गया है और बहुत ही खर्च इस्का लाभ ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1982 में शहर के धामांडी क्षेत्र में होम्योपैथी ओपीडी की स्थापना की जो सतत जारी है। उसके बाद 1998 में संस्थान ने होम्योपैथी चिकित्सा महविद्यालय की स्थापना की और शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथी चिकित्सा की ओपीडी शुरू की। इस केन्द्र पर मधुमेह, पथरी, थाईराइड, बाल रोग, चर्म रोग, स्त्री रोग, पार्किंसन, मानसिक रोग एवं एनबी सम्बंधी अन्य विभागीय की नियुक्त जांच एवं इलाज किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पहले से कई गुना बढ़ गई है खुद को स्वस्थ बनाने रखने के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को मदद ले रहे है यू तो छोटी बड़ी समस्याओं से जल्द राहत पाने के लिए अधिकतर लोग एलोपैथी टका लेना पसंद करते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट रहित दवाओं की चाह रखने वाले एक बड़ा तबका होम्योपैथी में विश्वास करता है लगातार हो रहे शोध कार्यों के चलते इस चिकित्सा पद्धति की प्रभावशीलता बढ़ गई है। इस अवसर पर डिप्टी रजिस्ट्रार चन्द्रशेखर द्विवेदी, सहकर्म कुल सचिव डॉ. धर्मेश राजीव, निदेशक शारीरिक एवं योग शिक्षा डॉ. दिलीप सिंह चौहान, डॉ. युवराज सिंह राठौड़, डॉ. प्रियंका कोठारी, डॉ. अंजिताराय, डॉ. लीली केन, डॉ. राजन सूर, डॉ. एजान हुसैन, डॉ. निवेदिता, डॉ. बन्नीता रसोई, डॉ. नवीन निरंजण, डॉ. एपी गुप्ता सहित कार्यक्रमकर्ता उपस्थित थे।

# कामधेनू लिमिटेड वित्त वर्ष 2022 के अंत तक राजस्थान में स्टील टीएमटी बार की उत्पादन क्षमता 20 प्रतिशत बढ़ाएगी

जयपुर, 28 जुलाई। स्टील और पेट के क्षेत्र में विविधतापूर्ण कारोबार करने वाली कामधेनू लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह राजस्थान के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी क्योंकि राज्य में स्टील उत्पादों की मांग में वृद्धि हो रही है। इस दिशा में कंपनी इस वित्त वर्ष के अंत तक अपना उत्पादन क्षमता में 20 प्रतिशत का इजाजत करने की योजना बना रही है। कंपनी को राजस्थान में मौजूद उत्पादन गुरु का जीवन में महत्व विषयक वैश्विक आगोष्ठि

उदयपुर, 28 जुलाई। रोटरी क्लब वसुधा द्वारा गुरु का जीवन में महत्व विषय पर एक वैश्विक का आयोजन किया गया। जिसके मुख्य वक्ता नरेश अग्रवाल शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉ. भवानी शंकर व्यास थे। इस अवसर पर डॉ. व्यास ने आदि गुरु वेदव्यास द्वारा रचित ऋग्वेदों के माध्यम से जीवन में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। क्लब अध्यक्ष डॉ. सुभाष आर्यो ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि ब्रह्मकुमारि प्रतापल सजीव जोषावत ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये।

उदयपुर 28 जुलाई। इनरव्हील क्लब ने कोशीना की तीसरी लहर से आमजन को बचाव हेतु कोशीना सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया। क्लब अध्यक्ष रमेश पामरिया ने बताया कि इस अवसर पर महिलाओं ने 'बचत कर अपना व्यवहार कर कोशीना पर वा', बच्चों को है समझाना, बेवकूफ घर से बाहर मत जाना' सही स्थान के जॉरिंग सावधान कर जागरूकता का प्रयास किया। क्लब सदस्यों ने न कच्ची बस्तियों के ग्रामीण लोगों को कोरोना से बचने के लिए वैक्सिन लगाने की प्रेरित

इंफोस्ट्रक्चर और निर्माण गतिविधियां पुनःआरंभ हो गई हैं। ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं की स्टील उत्पादों की मांग स्टेडि। कामधेनू लिमिटेड में हम अपने सभी दफतरो और विनिर्माण इकाइयों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, दरवाजे पंदाने आदि सभी निर्माणों का पालन कर रहे हैं।

कामधेनू टीएमटी बार को विश्व की सर्वश्रेष्ठ उच्च टेनोनेंजली का इस्तेमाल करते हुए बनाया जात है जिससे की वे



शुरू की। क र य क र। स्वस्थ श्रमिती ब्रेला जैन, श्रीमती आशा क. ु। 1। 1। त, श्रीमती रेखा जैन एवं स्वस्थ श्रमिती चिकित्सा केन्द्रों में महिलाओं से आग्रह किया कि महिलाएं वैक्सिन की दोनों डोज जल्द से जल्द लवाएं तथा 2 गुना रूढ़ि वा मास्क है पहनी, का कड़वे से पालन करें।

# दस वर्षीय बालिका को राज्यकर्मी मानकर राशन का गहुँ बंद किया

उदयपुर, 28 जुलाई। उदयपुर के वल्लभनगर उपखण्ड में एक दस वर्षीय बालिका को राज्यकर्मी मानकर राशन का गहुँ बंद करके उसे 6826/25- रुपये का वरकली नोटिस थामने का मामला सामने आया।

प्राज्ञ जायकरी के अनुसार वल्लभनगर उपखण्ड की खरपाण पंचायत के गांव मालवी डोगीनान में रहने वाली दस वर्षीय बालिका मन्नु पिता संकरलाल को उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर ने दितिक 12 अक्टूबर 2020 को अग्रक 1441-1558 से नोटिस दिया। उसके बाद परिवार की राशन सुविधा बंद हो गई। बालिका के पिता ने टीडएमकार प्रशासन को उत्तर पेश किया और वरकली की कार्यालयी रुकवाई, लेकिन परिवार को राशन सुविधा अभी तक नहीं मिली है। इस संबंध में मातली विधायक धर्मनारायण जोशी ने जिला कलेक्टर को एक लिखकर पत्र प्रेषण की जांच कराने और परिवार को राशन सुविधा पुनः प्रारंभ कराने की मांग की है।

# ग्रामीण पर्यटन: गाँव और शहरी लोगों के मध्य एक सेतु : डॉ. नरेंद्र सिंह राठौड़

उदयपुर, 28 जुलाई। सामुदायिक एवं व्यावहारिक विज्ञान महाविद्यालय द्वारा नरेंद्रसिंह फार्मर एंड रूरलार्डिंस अर्बन विषयक एक दिवसीय विशेषज्ञ बात का आयोजन किया गया। महाविद्यालय द्वारा संचालित उद्योग इंटरफेज कार्यक्रम के इस पहलू चरण को विशेषज्ञों की संशोधिका एवं महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ मीनू श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बताया कि ग्रामीण पर्यटन का उद्देश्य मानव कल्याण, ग्रामीण लोगों को आय और रोजगार में वृद्धि करना है जिससे ग्रामीणों को शो और जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। विश्वविद्यालय कुलपति एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ नरेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा बताया गया कि पर्यटन का कोई भी रूप जो ग्रामीण समुदाय द्वारा संचालित होता है उसे ग्रामीण पर्यटन कहते हैं। यह प्रपण मुक्त भागर पर केंद्रित है, ग्रामीण और शहरी लोगों के मिश्रण एवं सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण पर्यटन रोजगार और आय सृजन के अलावा कृषि गतिविधियां, कृषि-मशीनीकरण, कृषि आधुनिकीकरण का दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। उन्होंने समुदाय आधारित पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, वन पर्यटन, संगत पर्यटन, हॉटल पर्यटन जैसे सोपोपुल के विशेषज्ञ समुदाय, कुलपरिवार सहसहस्रक यात्रा, महाराष्ट्र के कनेरी मठ और अदि अन्य उदाहरण देते हुए ग्रामीण पर्यटन को आवश्यकता पर भी चर्चा की।

# किराया व्यावसायी 1 अगस्त से करेगे सरकारी कार्या का बहिष्कार

उदयपुर, 28 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा शादी समाहोत में मेहमानों को रखा जाने नहीं बढ़ाने को लेकर जिला किराया व्यावसायी संघर्ष समिति एवं टेंट व्यवसायी समिति ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए मांग की है कि 31 जुलाई तक मेहमानों की संख्या 300 नहीं बढ़ेगी तो 1 अगस्त से सरकारी व अर्द्धसरकारी राशिकी निविदाओं एवं कार्यों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जायेगा। उदयपुर जिला टेंट व्यवसायी समिति के महारथीचल कमल पोखराना ने बताया कि उदयपुर जिला टेंट व्यवसायी समिति की बैठक बुधवार को समिति के अध्यक्ष सुधीर चावत की अध्यक्षता एवं

उदयपुर 28 जुलाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रेशर अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के निर्देशनरूप शहर जिला भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली एवं भाजयुमो अध्यक्ष सती जोषावत के नेतृत्व में जिलाधीनो भी आपन प्रेषित कर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटोसरा को राज्यभार प्रशासनिक सेवा की भर्तियों में अपने पद के उदयपुरीय एवं रिश्तेदारों को इस्का अनुचित लाभ दिलाने जिसे कठोर्य हीन

# ‘एक राखी सैनिक के नाम’ अभियान का शुभारंभ

जयपुर, 28 जुलाई। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद से प्रेरित जनजाति महिलाओं को कला के अवनयन आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्थापित नया प्रशासी वीमन मूवमेंटस कोपरेटिव सोसायटी की ओर से इस साल भी 'एक राखी सैनिक के नाम' अभियान की शुरुआत बुधवार को की गई। पहले ही दिना 101 बहनों ने जनजाति बहनों को बनाई राखियों को सैनिक भाइयों तक भेजने के लिए बुकित करावई। वनवासी कल्याण आग्रम के उरर क्षेत्र की महिला प्रमुख के साथ सोसायटी की अध्यक्ष डॉ. रश्मिका लड्डू ने बताया कि

संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक देवनागरण धार्याई की मुख्य अतिथि में हुई। बैठक में सदस्यसमितियों ने निर्णय लिया कि सरकार के बार-बार अन्याय करने पर भी शादी समाहोत में मेहमानों को लेकर ललाई गई पांबंदी को हटवया नहीं जा रहा है इससे जुड़े सभी व्यापार प्रभावित हो रहे हैं।अध्यक्ष सुधीर चावत ने कहा कि हमें संयुक्त रूप से 50 बहनों की जाह 300 बहनों की परिपामन दी जाये। जिससे व्यापार की टेंट, लाइट, जनरेटर, फ्लकार एवं केटरिंग हलवाई, फोटोग्राफी, डी.जे., बैंड, इन्वेट, लवाजमा, धोपार, ब्यूटी पालर आदि को पूर्ण रूप से खोला जाए।

# एयरटेल द्वारा अपने शुरुआती प्रीपेड प्लान्स अब उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुविधाओं से लैस

उदयपुर, 28 जुलाई। भारत के प्रमुख संचार समाधान प्रदाता भारतीय एयरटेल (एयरटेल) ने आज अपने प्रीपेड रिचार्ज प्लान में बदलाव की घोषणा की है। एयरटेल ने अपने ए. 49 के न्यूनतम शुरुआती रिचार्ज को बंद कर दिया है। कंपनी द्वारा अब अपना सबसे कम कोमत का प्रीपेड स्मार्ट रिचार्ज ₹.79 में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें 4 गुना आउटगोिंग मिनिट प्रदाता किए जाएंगे साथ ही दोगुना डाटा भी उपभोक्ताओं को मिलेगा। एयरटेल द्वारा यह रिचार्ज अपने उपभोक्ताओं को बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह शुरुआती रिचार्ज कराते वाले एयरटेल उपभोक्ता अब विना वैक्सिन की चिंता करें ज्यादा समय तक इस रिचार्ज के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। यह बदलाव 29 जुलाई 2021 से प्रभावी होने।

**चमकते सितारे**

facebook.com/brahmakumarisdailymessages

**दुआ या बहुआ किसीके बोलने से नहीं किन्तु खुद के व्यवहार और कर्म से मिलती है, इसलिए हमारा व्यवहार और कर्म सदा सुखदाई हो तो दुआएं स्वतः मिलती रहेंगी।**

# गीतांजलि से बलीचा मेन हाईवे पर कचरा डालने एवं रेत की अतिक्रमण हटाने के संबंध में ज्ञापन

उदयपुर, 28 जुलाई। बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से आज एलसीएम सिटी अशोक कुमार को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें बताया गया कि गीतांजलि हॉस्पिटल, मेलाडी नारा मंदिर, बलीचा मेन हाईवे रोड के दोनों तरफ कतिपय तलवां द्वारा एक दिन कचरे के ढेर डाले जाने पर उनसे उठने वाली दुर्गंध एवं साधों ही गाय कुत्ते एवं अन्य जानवरों द्वारा उनको बिखेरा जाता है, जिससे कचरा रोड पर फैल जाता है जिसके कारण गहरी पशु आएं दिन दुर्गन्ता में मारे जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं बड़ा हदसा होने का भी डर बन रहता है, साथ ही मुख्य मार्गों पर जो सर्विस रोड बनाई गई है वहां पर भी रेत मालिन्याओं ने रेत आदि के अवैध रोड पर ही डेर बना कर बेचना चालू किया है जिससे रेत सड़कों पर फैल जाती है एवं इनको कुंठ कहन पर यह मारपीट पर उआर हो जाते हैं इन सब को लेकर के बजरंग सेना मेवाड़ प्रमुख कमलदेव सिंह पंवार एवं सभाध्य अध्यक्ष सुनिम कल्याण ने एडीएम सिटी से मिलकर चेतावनी कि शोध ही ऐसे तलवां के खिलाफ पुराना कारवाई हो एवं एवं इनको पारबं किया जाए।

# विजयलक्ष्मी गलूडिया संरक्षक मनीनी

उदयपुर, 28 जुलाई। सकल जैन समाज की अग्रणी संस्था भारतीय जैन संघटना के प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार फतावत ने भारतीय जैन संघटना लीडिंग विंग कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए विजयलक्ष्मी गलूडिया को बीजेएस लेडीज विंग की संरक्षिका मनोनीत किया। फतावत ने बताया कि वर्ष भर में जल्द सुरू होने वाले कई प्रकार के सेवा कार्य किए जाएंगे।

# शिक्षा मंत्री गोविंद डोटोसरा की बर्खास्तगी को लेकर शहर जिला भाजयुमो द्वारा राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन, पुतला फूँका

उदयपुर 28 जुलाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रेशर अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के निर्देशनरूप शहर जिला भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली एवं भाजयुमो अध्यक्ष सती जोषावत के नेतृत्व में जिलाधीनो भी आपन प्रेषित कर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटोसरा को राज्यभार प्रशासनिक सेवा की भर्तियों में अपने पद के उदयपुरीय एवं रिश्तेदारों को इस्का अनुचित लाभ दिलाने जिसे कठोर्य हीन

# ‘एक राखी सैनिक के नाम’ अभियान का शुभारंभ

जयपुर, 28 जुलाई। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद से प्रेरित जनजाति महिलाओं को कला के अवनयन आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से स्थापित नया प्रशासी वीमन मूवमेंटस कोपरेटिव सोसायटी की ओर से इस साल भी 'एक राखी सैनिक के नाम' अभियान की शुरुआत बुधवार को की गई। पहले ही दिना 101 बहनों ने जनजाति बहनों को बनाई राखियों को सैनिक भाइयों तक भेजने के लिए बुकित करावई। वनवासी कल्याण आग्रम के उरर क्षेत्र की महिला प्रमुख के साथ सोसायटी की अध्यक्ष डॉ. रश्मिका लड्डू ने बताया कि

संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक देवनागरण धार्याई की मुख्य अतिथि में हुई। बैठक में सदस्यसमितियों ने निर्णय लिया कि सरकार के बार-बार अन्याय करने पर भी शादी समाहोत में मेहमानों को लेकर ललाई गई पांबंदी को हटवया नहीं जा रहा है इससे जुड़े सभी व्यापार प्रभावित हो रहे हैं।अध्यक्ष सुधीर चावत ने कहा कि हमें संयुक्त रूप से 50 बहनों की जाह 300 बहनों की परिपामन दी जाये। जिससे व्यापार की टेंट, लाइट, जनरेटर, फ्लकार एवं केटरिंग हलवाई, फोटोग्राफी, डी.जे., बैंड, इन्वेट, लवाजमा, धोपार, ब्यूटी पालर आदि को पूर्ण रूप से खोला जाए।

स्वाईन से बचाव एवं उपचार के लिए तुलुत असरकारक

**जागृति फिवरिन काहा**

स्वाईनफ्लू, डेंगू एवं चिकनगुनिया एवं उससे उत्पन्न चूड़, बुका, खसो, बुधार, वदन रई इत्यादी में लायव, सतिर में रोग प्रतिकरक धमका को बढता है।

**JAGRITI FEVERIN KADA**

**Jyoti Stores**

(A Leading Merchant in Ayurvedic medicines)

**ज्ञाति स्टॉर्स**

Out side Delhi Gate UDAIPUR-313001 (Raj)

अनुपची चिकित्सा परामर्श भी उपलब्ध, फोन नं. : 2420016 (S)

Email : jagritiherbs@yahoo.com Website : www.jagritiayurved.com